

थाना खुदागंज पुलिस व एस0ओ0जी0 टीम को मिली बड़ी सफलता,

थाना निगोही क्षेत्र में घटित ट्रेक्टर/ट्राली लूटकाण्ड का पर्दाफाश, पुलिस मुठभेड के बाद हिस्ट्रीशीटर सहित कुल 06 अभियुक्तगण गिरफ्तार, लूटा गया ट्रेक्टर ट्राली एवं घटना में प्रयुक्त दो मोटर साइकिलो सहित एक स्विफ्ट कार, एक अवैध तमंचा 315 बोर मय खोका व जन्दा कारतूस एवं दो

अवैध चाकू बरामद ।

श्री एस0 आनन्द, पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर के निर्देशानुसार जनपद में घटित घटनाओ के सफल अनावरण एवं अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु श्री निपुण अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण एवं श्री परमानंद पाण्डेय, क्षेत्राधिकारी तिलहर के निकट पर्यवेक्षण में एस0ओ0जी0 टीम व थाना खुदागंज पुलिस को दिनांक 23.12.20 को मुखबिर ने सूचना दी की ग्राम नौसना से 300 मीटर दूर नहर पटरी पर कुछ बदमाश निगोही क्षेत्र से लूटे गये ट्रेक्टर व ट्राली के साथ मौजूद हैं, उक्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुँचकर मौजूद बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो अभि0गण द्वारा पुलिस पार्टी को देखकर व जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया । पुलिस पार्टी द्वारा अदम्य साहस व सहनशीलता का परिचय देते हुये घेराबन्दी कर एवं आवश्यक बल प्रयोग करते हुये सभी अभियुक्तगण को मौके पर प्रातः 11.00 बजे गिरफ्तार किया गया । पकड़े गये अभियुक्तगण के कब्जे से थाना निगोही क्षेत्र से ग्राम छतैनी के रास्ते से लूटा गया ट्रेक्टर ट्राली, लूट की घटना में प्रयुक्त दो मो0साइकिले, एक चार पहिया स्विफ्ट कार, एक अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा व एक खोका कारतूस, दो अवैध चाकू आदि सामान बरामद किया गया है।

गिरफ्तार किये गये अभि0गण द्वारा पूछताछ पर बताया कि दिनांक 28/29.11.2020 की रात्रि में जयनेन्द्र उर्फ सोनू पुत्र अजयपाल नि0 ग्राम बरहा मोहब्बतपुर, 2-सत्यवीर उर्फ रिन्कू पुत्र चन्द्रसेन नि0 ग्राम ग्वार, 3-अंकित पुत्र सुरेश चन्द्र नि0 ग्राम जेनयूरी थाना तिलहर, 4-पवन पुत्र कल्याण नि0 ग्राम ग्वार थाना तिलहर ने ग्राम छतेनी थानाक्षेत्र निगोही के पास पक्के रास्ते से एक ट्रेक्टर ट्राली को जिसमें गन्ना भरा था, लूट लिया था सम्बन्धित मु0अ0स0 486 /20 धारा 392 भादवि बनाम अज्ञात । दिनांक 29.11.2020 की प्रातः उक्त चारो लूटे गये ट्रेक्टर ट्राली को विनोद पुत्र विशनराम व रोशन पुत्र देशराज नि0गण लालकुआ (नैनीताल) के पास लालकुआ ले गये तथा इनके हाथ 02 लाख रुपये में बेच दिया था। तयशुदा रकम में से 50 हजार रुपये उसी दिन मिल गये थे शेष 1.50 लाख रुपये बाद में देना तय हुआ था । उसके बाद कई बार रुपये मांगने पर रोशन आदि रुपये देने में आनाकानी कर रहे थे तथा रुपये नहीं दे रहे थे । विनोद व रोशन आदि ने ट्राली पर गहरा पीला रंग करवा दिया था ताकि वह आसानी से पहचान में ना सके । हमने ट्रेक्टर ट्राली वापस करने को कहा तो आज विनोद व रोशन ट्रेक्टर आदि लौटाने के लिये यहा पर आये थे हम लोग उनसे बातचीत कर रहे थे कि पुलिस आ गयी तो हम लोगो ने पुलिस से बचने व मौके से भागने के लिये पुलिस पर फायर कर दिया था । गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना खुदागंज पर अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की गयी ।

गिरफ्तार किये गये अभि0गण का विवरण:-

- 1-जयनेन्द्र उर्फ सोनू पुत्र अजयपाल नि0 ग्राम बरहा मोहब्बतपुर थाना तिलहर जनपद शाह0पुरा
- 2-सत्यवीर उर्फ रिन्कू पुत्र चन्द्रसेन नि0 ग्राम ग्वार थाना तिलहर जनपद शाह0पुरा
- 3-अंकित पुत्र सुरेश चन्द्र नि0 ग्राम जेनयूरी थाना तिलहर जनपद शाह0पुरा
- 4-पवन पुत्र कल्याण नि0 ग्राम ग्वार थाना तिलहर जनपद शाह0पुरा
- 5-रोशन पुत्र देशराज नि0 आई0टी0बी0पी0 छावनी के पास थाना लालकुआ जनपद नैनीताल।
- 6-विनोद पुत्र विशनराम नि0 आई0टी0बी0पी0 छावनी के पास थाना लालकुआ जनपद नैनीताल।

बरामदगी का विवरण:-

- 1- एक अदद ट्रेक्टर ट्राली सोनालीका कम्पनी
- 2-दो अदद मो0साइकिले
- 3-एक अदद स्विफ्ट कार
- 4-एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय एक खोका व दो जिन्दा कारतूस
- 5-02 अदद अवैध चाकू

अनावरित अभियोग:-

- 1-मु0अ0स0 486 /20 धारा 392 भादवि बनाम अज्ञात थाना निगोही शाहजहाँपुर

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-श्री वकार अहमद, थानाध्यक्ष खुदागंज शाह0
- 2-श्री रोहित कुमार, प्रभारी एस0ओ0जी0 टीम शाह0
- 3-उ0नि0 श्री राजपाल सिंह, थाना खुदागंज शाह0पुरा
- 4-उ0नि0 श्री स्वामीनाथ थाना खुदागंज शाह0पुरा
- 5-का02290 अंकित तौमर, का01841 शाहरूख हसन, का01839 विषाल कुमार, का0732 अर्जुन कुमार थाना खुदागंज शाह0पुरा
- 6-का0671 अमरजीत सिंह, का0264 ज्ञानेन्द्र सिंह, का0166 उदयवीर सिंह, का01475 अजय कुमार, का01405 तौसीम हैदर, का01435 दिलीप कुमार, का01408 कपिल ठाकुर, का01855 कुशलपाल एस0ओ0जी0 टीम, शाह0पुरा